

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2611]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 21, 2013/कार्तिक 30, 1935

No. 2611]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2013/KARTIKA 30, 1935

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2013

का० आ० 3452 (अ.)—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के नवादा एवं नालान्दा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (रजौली—नवादा—बिहारशरीफ—बख्तीयारपुर खंड) के नवादा जिले में 47.723 कि०मी० से 101.680 कि०मी० और नालान्दा जिले में 101.680 कि०मी० से 146.960 कि०मी० तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा। ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा एवं नालान्दा को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेप कर्ता को व्यक्तिगत रूप में या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे आक्षेप की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेप को अनुज्ञात करेगा या अनुज्ञात करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा, और

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आनेवाली भूमि के रेखांक एवं अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य के नवादा एवं नालंदा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-३१ (रजौली-नवादा-बिहारशरीफ-बख्तीयारपुर खंड) के नवादा जिले में ४७.७२३ कि०मी०. से १०१.६८० कि०मी० और नालंदा जिले में १०१.६८० कि०मी०. से १४६.९६० कि०मी०. तक के लिये अर्जन की जानेवाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमिका संक्षिप्त विवरण:-

एन० एच०-३१ (रजौली-नवादा-बिहारशरीफ-बख्तीयारपुर) ३ए अनुसूची - नवादा जिला

क्र० सं०	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
१	२	३	४	५	६	७	८
१	नवादा	रजौली	हर्दिया थाना-१४८	१३८	निजी	आंशिक आवासीय	०.०४८
				१३९	निजी	आंशिक आवासीय	०.०४५
				१४०	निजी	आंशिक आवासीय	०.००३
				१४२	निजी	आंशिक आवासीय	०.००२
				१४३	निजी	आंशिक आवासीय	०.००८
				१४४	निजी	आंशिक आवासीय	०.०३४
				१४५	निजी	आंशिक आवासीय	०.०३९
				१४७	निजी	आंशिक आवासीय	०.१५०
				१६४	निजी	आंशिक आवासीय	०.०१०
				१६५	निजी	आंशिक आवासीय	०.०३१
				१६६	निजी	आंशिक आवासीय	०.००४
				१६७	निजी	आंशिक आवासीय	०.००५
				१६८	निजी	आंशिक आवासीय	०.०३०
				१६९	निजी	आंशिक आवासीय	०.०१६
				१७०	निजी	आंशिक आवासीय	०.००८
				१७६	निजी	आंशिक आवासीय	०.०३२
				६४८	निजी	आंशिक आवासीय	०.०४२
				६४७	निजी	आंशिक आवासीय	०.१००
				६४५	निजी	आंशिक आवासीय	०.०३८

क्र० सं०	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
				644	निजी	आंशिक आवासीय	0.002
				642	निजी	आंशिक आवासीय	0.012
				643	निजी	आंशिक आवासीय	0.134
				640	निजी	आंशिक आवासीय	0.018
				639	निजी	आंशिक आवासीय	0.104
				638	निजी	आंशिक आवासीय	0.050
				637	निजी	आंशिक आवासीय	0.016
				631	निजी	आंशिक आवासीय	0.038
				630	निजी	आंशिक आवासीय	0.323
				628	निजी	आंशिक आवासीय	0.050
				623	निजी	आंशिक व्यवसायिक	0.054
				621	निजी	आंशिक व्यवसायिक	0.015
				622	निजी	आंशिक आवासीय	0.243
				614	निजी	आंशिक आवासीय	0.080
				613	निजी	आंशिक आवासीय	0.050
				600	निजी	आंशिक आवासीय	0.014
				599	निजी	आंशिक आवासीय	0.030
				598	निजी	आंशिक आवासीय	0.015
				597	निजी	आंशिक आवासीय	0.063
				596	निजी	आंशिक आवासीय	0.130
				712	निजी	आंशिक आवासीय	0.001
				777	निजी	आंशिक आवासीय	0.032
				776	निजी	आंशिक आवासीय	0.026

क्र० सं०	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
				775	निजी	आंशिक आवासीय	0.010
				774	निजी	आंशिक आवासीय	0.006
				773	निजी	आंशिक आवासीय	0.003
				764	निजी	आंशिक आवासीय	0.096
				763	निजी	आंशिक आवासीय	0.019
				762	निजी	आंशिक आवासीय	0.026
				761	निजी	आंशिक आवासीय	0.044
				760	निजी	आंशिक आवासीय	0.005
				743	निजी	आंशिक आवासीय	0.136
				742	निजी	आंशिक आवासीय	0.030
				741	निजी	आंशिक आवासीय	0.010
				736	निजी	आंशिक आवासीय	0.031
				737	निजी	आंशिक आवासीय	0.008
				731	निजी	आंशिक आवासीय	0.030
						कुल	2.595
2	नवादा	रजौली	रामदासी थाना—182	358	निजी	आवासीय	0.048
				357	निजी	आवासीय	0.051
				356	निजी	आवासीय	0.072
				355	निजी	आवासीय	0.134
				354	निजी	आवासीय	0.163
				340	सरकारी	सड़क	0.005
				224	निजी	आवासीय	0.019
				223	निजी	आवासीय	0.052
				222	निजी	आवासीय	0.058
				221	निजी	आवासीय	0.173
				219	निजी	आवासीय	0.328
				217	निजी	आवासीय	0.001
				218	सरकारी	सड़क	0.044
				164	निजी	आवासीय	0.011
				173	निजी	आवासीय	0.001

क्र० सं०	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
				162	निजी	आवासीय	0.624
				156	निजी	आवासीय	0.017
				157	निजी	आवासीय	0.176
				158	निजी	आवासीय	0.304
				159	सरकारी	बाँध	0.002
				160	निजी	आवासीय	0.410
				540	निजी	आवासीय	0.144
				539	निजी	आवासीय	0.102
				538	निजी	आवासीय	0.043
				537	निजी	आवासीय	0.064
				519	सरकारी	आवासीय	0.073
				518	निजी	आवासीय	0.129
				514	निजी	आवासीय	0.045
				513	निजी	आवासीय	0.032
				512	निजी	आवासीय	0.120
				510	निजी	आवासीय	0.010
				511	निजी	आवासीय	0.064
				506	निजी	आवासीय	0.029
				505	निजी	आवासीय	0.024
				504	निजी	आवासीय	0.027
				498	निजी	आवासीय	0.036
				364	निजी	आवासीय	0.026
				363	निजी	आवासीय	0.021
				362	निजी	आवासीय	0.020
				361	निजी	आवासीय	0.018
				360	निजी	आवासीय	0.020
						कुल	3.740

एन०एच०-31 (रजौली-नवादा-बिहारशरीफ-बख्तीयारपुर) 3ए अनुसूची - नालान्दा जिला

1	नालान्दा	गिरियक	कान्दोपुर थाना नं०-350	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
				493	निजी	भीठ	0.002
				494	गै० आम	मोटा आर	0.001
				495	निजी	धनहर	0.003
				503	निजी	भीठ	0.267
				510	गै० आम	परती कदीम	0.005
				511	निजी	भीठ	0.062
				512	निजी	भीठ	0.062
				513	निजी	भीठ	0.068
				524	निजी	भीठ	0.026
				525	निजी	भीठ	0.022
				526	निजी	भीठ	0.060
				527	निजी	भीठ	0.452

क्र० सं०	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
				528	निजी	भीठ	0.150
				529	निजी	भीठ	0.177
				530	निजी	भीठ	0.133
				531	निजी	भीठ	0.146
				532	निजी	भीठ	0.001
				537	निजी	भीठ	0.024
				538	निजी	भीठ	0.147
				539	निजी	धनहर	0.024
				540	निजी	भीठ	0.050
				541	निजी	धनहर	0.006
				542	निजी	भीठ	0.003
				534	जिला परिषद	खन्ता	0.055
				535	जिला परिषद	सड़क	0.054
				536	जिला परिषद	खन्ता	0.054
							2.053
		रहुई	अमरपुर-23	7	निजी	भीठ	0.030
				1	जिला परिषद	खन्ता सड़क	0.308
				2	रा०उ०पथ-78	सड़क	0.194
				2	बकास्त ठीकेदार	धनहर	0.249
				3	निजी	धनहर	0.060
				4	निजी	भीठ	0.110
				5	निजी	भीठ	0.084
				14	गै० आम	अलंग	0.075
				15	निजी	धनहर	0.060
				16	निजी	भीठ	0.005
				17	निजी	भीठ	0.001
				18	निजी	भीठ	0.008
				20	बकास्त ठीकेदार	भीठ	0.001
				21	बकास्त ठीकेदार	धनहर	0.156
				22	गै० ठीकेदार	भीठ	0.004
				23	निजी	भीठ	0.118
				24	निजी	धनहर	0.072
				25	बकास्त ठीकेदार	धनहर	0.086
				26	निजी	धनहर	0.090
				27	निजी	भीठ	0.056
				28	निजी	धनहर	0.043
				29	निजी	भीठ	0.012
				30	निजी	धनहर	0.008
				80	बकास्त	धनहर	0.040

क्र० सं०	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
					ठीकेदार		
				81	निजी	भीठ	0.066
				82	गै० आम	खन्ता	0.013
				93	निजी	भीठ	0.163
				98	निजी	भीठ	0.216
				102	निजी	भीठ	0.060
				103	बकास्त मालिक	भीठ	0.053
				104	निजी	भीठ	0.010
				105	निजी	भीठ	0.080
				106	निजी	भीठ	0.266
				107	गै० आम	अलंग	0.017
				108	निजी	भीठ	0.017
				109	निजी	भीठ	0.008
				110	निजी	भीठ	0.550
				111	निजी	भीठ	0.022
				112	निजी	भीठ	0.076
				113	निजी	भीठ	0.039
				143	गै० आम	खन्ता	0.045
				162	निजी	धनहर	0.024
				163	निजी	धनहर	0.052
				165	निजी	धनहर	0.063
				170	बकास्त मालिक	भीठ	0.060
				171	निजी	धनहर	0.036
				172	निजी	धनहर	0.324
				173	निजी	भीठ	0.097
				175	निजी	धनहर	0.070
				178	गै० आम	अलंग	0.014
				281	निजी	भीठ	0.036
				285	निजी	धनहर	0.010
				286	निजी	धनहर	0.016
				287	निजी	धनहर	0.080
				288	निजी	धनहर	0.088
				289	बकास्त मालिक	धनहर	0.050
				290	निजी	धनहर	0.068
				291	निजी	धनहर	0.084
				292	निजी	भीठ	0.043
				293	निजी	भीठ	0.088
				294	निजी	भीठ	0.051
				303	निजी	धनहर	0.057
				304	निजी	धनहर	0.090
				305	बकास्त मालिक	धनहर	0.026
				306	निजी	धनहर	0.283

क्र० सं०	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
				308	निजी	धनहर	0.025
				309	निजी	धनहर	0.053
				310	निजी	धनहर	0.043
				328	निजी	धनहर	0.057
							5.558

[फा. सं. आर. डब्ल्यू/एन.एच.—12037/341/2012—बी. आर./पी. 3]

माया प्रका 1, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, 21st November, 2013

S.O. 3452 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (I) of section 3A of the National Highway act.1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule below, is required for building (widening four laning etc.) Maintenance, management and operation of National Highway No. 31(Rajauli-Nawada-Biharsharif-Bakhtiyarpur Section) in the stretch of land from Km 47.723 to Km 101.680, in the District of Nawada and from Km 101.680 to Km 146.960 in the District of Nalanda in the state of Bihar, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the official gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub section (1) of section 3C of the said act.

Every such objection shall be made to the competent Authority, cum, District Land Acquisition officer Nawada and Nalanda, Bihar in writing and shall set out the ground thereof, and the competent authority shall give the object or an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub section (2) of section 3C of the said act shall be final.

The Land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

NH-31 (Rajauli-Nawada-Biharsharif-Bakhtiyarpur Section) 3A Schedule – Nawada District

Sl. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of the Village	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area in Hct.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nawada	Rajauli	Hardiya - 148	138	Private	Partial Residential	0.048
				139	Private	Partial Residential	0.045
				140	Private	Partial Residential	0.003
				142	Private	Partial Residential	0.002

Sl. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of the Village	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area in Hct.
1	2	3	4	5	6	7	8
				143	Private	Partial Residential	0.008
				144	Private	Partial Residential	0.034
				145	Private	Partial Residential	0.039
				147	Private	Partial Residential	0.150
				164	Private	Partial Residential	0.010
				165	Private	Partial Residential	0.031
				166	Private	Partial Residential	0.004
				167	Private	Partial Residential	0.005
				168	Private	Partial Residential	0.030
				169	Private	Partial Residential	0.016
				170	Private	Partial Residential	0.008
				176	Private	Partial Residential	0.032
				648	Private	Partial Residential	0.042
				647	Private	Partial Residential	0.100
				645	Private	Partial Residential	0.038
				644	Private	Partial Residential	0.002
				642	Private	Partial Residential	0.012
				643	Private	Partial Residential	0.134
				640	Private	Partial Residential	0.018
				639	Private	Partial Residential	0.104
				638	Private	Partial Residential	0.050
				637	Private	Partial Residential	0.016
				631	Private	Partial Residential	0.038
				630	Private	Partial Residential	0.323
				628	Private	Partial Residential	0.050
				623	Private	Partial Commercial	0.054
				621	Private	Partial Commercial	0.015
				622	Private	Partial Residential	0.243
				614	Private	Partial Residential	0.080
				613	Private	Partial Residential	0.050
				600	Private	Partial Residential	0.014
				599	Private	Partial Residential	0.030
				598	Private	Partial Residential	0.015
				597	Private	Partial Residential	0.063
				596	Private	Partial Residential	0.130
				712	Private	Partial Residential	0.001
				777	Private	Partial Residential	0.032
				776	Private	Partial Residential	0.026
				775	Private	Partial Residential	0.010
				774	Private	Partial Residential	0.006

Sl. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of the Village	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area in Hct.
1	2	3	4	5	6	7	8
				773	Private	Partial Residential	0.003
				764	Private	Partial Residential	0.096
				763	Private	Partial Residential	0.019
				762	Private	Partial Residential	0.026
				761	Private	Partial Residential	0.044
				760	Private	Partial Residential	0.005
				743	Private	Partial Residential	0.136
				742	Private	Partial Residential	0.030
				741	Private	Partial Residential	0.010
				736	Private	Partial Residential	0.031
				737	Private	Partial Residential	0.008
				731	Private	Partial Residential	0.030
						Total	2.595
2	Nawada	Rajauli	Ramdasi - 182	358	Private	Residential	0.048
				357	Private	Residential	0.051
				356	Private	Residential	0.072
				355	Private	Residential	0.134
				354	Private	Residential	0.163
				340	Government	Road	0.005
				224	Private	Residential	0.019
				223	Private	Residential	0.052
				222	Private	Residential	0.058
				221	Private	Residential	0.173
				219	Private	Residential	0.328
				217	Private	Residential	0.001
				218	Government	Road	0.044
				164	Private	Residential	0.011
				173	Private	Residential	0.001
				162	Private	Residential	0.624
				156	Private	Residential	0.017
				157	Private	Residential	0.176
				158	Private	Residential	0.304
				159	Government	Bund	0.002
				160	Private	Residential	0.410
				540	Private	Residential	0.144
				539	Private	Residential	0.102
				538	Private	Residential	0.043
				537	Private	Residential	0.064
				519	Government	Residential	0.073
				518	Private	Residential	0.129

Sl. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of the Village	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area in Hct.
1	2	3	4	5	6	7	8
				514	Private	Residential	0.045
				513	Private	Residential	0.032
				512	Private	Residential	0.120
				510	Private	Residential	0.010
				511	Private	Residential	0.064
				506	Private	Residential	0.029
				505	Private	Residential	0.024
				504	Private	Residential	0.027
				498	Private	Residential	0.036
				364	Private	Residential	0.026
				363	Private	Residential	0.021
				362	Private	Residential	0.020
				361	Private	Residential	0.018
				360	Private	Residential	0.020
						Total	3.740

NH-31 (Rajauli-Nawada-Biharsharif-Bakhtiyarpur Section) 3A Schedule – Nalanda District

1	Nalanda	Giriyak	Kandopur - 350	493	Private	Bhith	0.002
				494	G.M.A	Mota Aar	0.001
				495	Private	Dhanahar	0.003
				503	Private	Bhith	0.267
				510	G.M.A	Parti Kadim	0.005
				511	Private	Bhith	0.062
				512	Private	Bhith	0.062
				513	Private	Bhith	0.068
				524	Private	Bhith	0.026
				525	Private	Bhith	0.022
				526	Private	Bhith	0.060
				527	Private	Bhith	0.452
				528	Private	Bhith	0.150
				529	Private	Bhith	0.177
				530	Private	Bhith	0.133
				531	Private	Bhith	0.146
				532	Private	Bhith	0.001
				537	Private	Bhith	0.024
				538	Private	Bhith	0.147
				539	Private	Dhanahar	0.024
				540	Private	Bhith	0.050
				541	Private	Dhanahar	0.006
				542	Private	Bhith	0.003
				534	District Board	khanta	0.055

Sl. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of the Village	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area in Hct.
1	2	3	4	5	6	7	8
				535	District Board	Sadak	0.054
				536	District Board	khanta	0.054
							2.053
		Rahui	Amarpur - 23	7	Private	Bhith	0.030
				1	District Board	Khatta Sadak	0.308
				2	S.H-78	Sadak	0.194
				2	B. Thikedar	Dhanahar	0.249
				3	Private	Dhanahar	0.060
				4	Private	Bhith	0.110
				5	Private	Bhith	0.084
				14	G.M.A	Alang	0.075
				15	Private	Dhanahar	0.060
				16	Private	Bhith	0.005
				17	Private	Bhith	0.001
				18	Private	Bhith	0.008
				20	B. Thikedar	Bhith	0.001
				21	B. Thikedar	Dhanahar	0.156
				22	G.Thikedar	Bhith	0.004
				23	Private	Bhith	0.118
				24	Private	Dhanahar	0.072
				25	B. Thikedar	Dhanahar	0.086
				26	Private	Dhanahar	0.090
				27	Private	Bhith	0.056
				28	Private	Dhanahar	0.043
				29	Private	Bhith	0.012
				30	Private	Dhanahar	0.008
				80	B. Thikedar	Dhanahar	0.040
				81	Private	Bhith	0.066
				82	G.M.A	Khatta	0.013
				93	Private	Bhith	0.163
				98	Private	Bhith	0.216
				102	Private	Bhith	0.060
				103	Bakat Malik	Bhith	0.053
				104	Private	Bhith	0.010
				105	Private	Bhith	0.080
				106	Private	Bhith	0.266
				107	G.M.A	Alang	0.017
				108	Private	Bhith	0.017
				109	Private	Bhith	0.008
				110	Private	Bhith	0.550

Sl. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of the Village	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area in Hct.
1	2	3	4	5	6	7	8
				111	Private	Bhith	0.022
				112	Private	Bhith	0.076
				113	Private	Bhith	0.039
				143	G.M.A	Khatta	0.045
				162	Private	Dhanahar	0.024
				163	Private	Dhanahar	0.052
				165	Private	Dhanahar	0.063
				170	Bakat Malik	Bhith	0.060
				171	Private	Dhanahar	0.036
				172	Private	Dhanahar	0.324
				173	Private	Bhith	0.097
				175	Private	Dhanahar	0.070
				178	G.M.A	Alang	0.014
				281	Private	Bhith	0.036
				285	Private	Dhanahar	0.010
				286	Private	Dhanahar	0.016
				287	Private	Dhanahar	0.080
				288	Private	Dhanahar	0.088
				289	Bakat Malik	Dhanahar	0.050
				290	Private	Dhanahar	0.068
				291	Private	Dhanahar	0.084
				292	Private	Bhith	0.043
				293	Private	Bhith	0.088
				294	Private	Bhith	0.051
				303	Private	Dhanahar	0.057
				304	Private	Dhanahar	0.090
				305	Bakat Malik	Dhanahar	0.026
				306	Private	Dhanahar	0.283
				308	Private	Dhanahar	0.025
				309	Private	Dhanahar	0.053
				310	Private	Dhanahar	0.043
				328	Private	Dhanahar	0.057
							5.558

[F. No. RW/NH-12037/341/2012-BR/P-3]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy,